

ऍडमिशन लेने से पहले यह पढे...

प्रिय कॅन्डिडेट,
इस वेबसाइटपे आपका स्वागत है. इस डॉक्युमेंट में कुछ सुचनाये दी गई है.

आपको यह सूचित किया जाता है की ऍडमिशन लेने से पहले इस डॉक्युमेंट मे दी गई सूचना और जानकारी ध्यान से पढे.

यहां का सिल्लेबस पढा है आपने?

क्या आपने यहां का सिल्लेबस (अभ्यासक्रम) क्या है यह पढा है हमारी साईट पे?

यदि नही, तो वो जरूर पढे.

यहां का सिल्लैबस अलग है...

आपने देखा होगा की, यहां का सिल्लैबस (अभ्यासक्रम) ज्यादातर अन्य भारतीय कॉलेजेस/युनिव्हर्सिटीज की तुलना में अलग है.

यहां Java/C++/C-sharp/VB आदि कोई भी भाषा नहीं सिखाई जाती.

यहां J2EE/.Net/Android/iOS/Web technology आदि कोई टेक्नॉलॉजी भी नहीं सिखाई जाती.

NO language No Technology

यहां Java/C++/C-sharp/VB आदि कोई भी भाषा नहीं सिखाई जाती.

यहां J2EE/.Net/Android/iOS आदि कोई टेक्नॉलॉजी भी नहीं सिखाई जाती.

आपको यह इसलिये बताया जा रहा है की अगर आप सिर्फ ऐसी कुछ भाषाएं या टेक्नॉलॉजी वगैरा पढने की सोच रहे है तो इस डिपार्टमेंट मे आपकी निराशा होगी.

ठहरिये और सोचिये...

अगर आप फंडामेंटल कंप्यूटर सायंस और प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और सिर्फ माक्स में ही इंटरिस्टेड नहीं हैं तो आप को इस डिपार्टमेंट में प्रवेश लेना अच्छा लगेगा.

लेकिन अगर कोई स्टुडेंट को **टिपीकल कॉलेज टाईप रट्टा-मार स्टडी** की आदत लगी है - जहां एग्जाम के १०/१५ दिन पहले पिछले एग्जाम के प्रश्न-पत्र और उनके तथाकथित मॉडेल आन्सर्स को रट्टा मारमारके याद करना - तो यह डिपार्टमेंट ऐसे स्टुडेंट्स के लिये उचित नहीं है. **प्रवेश से पहले आप इस बारे में भी जरूर सोचिये.**

Advice

अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग सिखने में इंटरेस्टेड है (**ना की Java/C++/C-sharp/VB जैसे कुछ भाषाओंके सिंटक्स या J2EE/.Net/Android/iOS के जैसी कुछ टेक्नॉलॉजीज के कुछ API calls**)

और

अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग सिखने के लिये कष्ट और स्टडी करने में भी इंटरेस्टेड है, तो यह डिपार्टमेंट आपके लिये एक अच्छी जगह है **वरना नहीं**.

Advice contd...

लेकिन अगर आप को सिर्फ आसानीसे मिल सके ऐसी डिग्री सर्टिफिकेट चाहिये, या आपको **Java/C++/C-sharp/VB** ऐसी भाषाओं का **J2EE/.Net/Android/iOS** ऐसी कोई टेक्नॉलॉजी का ट्रेनिंग चाहिये तो यह डिपार्टमेंट आपके लिये **उचित नहीं है**.

यह तो आप जान ही गये होंगे की यहा ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती. यहां सिर्फ फंडामेंटल कंप्यूटर सायन्स (जिसमें बहुत सारा डिफिकल्ट मॅथ्स है) और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है. **यहां रट्टा-मारू पढाई से पास भी होना बहुत मुश्किल है; अच्छे ग्रेड्स मिलना तो बहुत दूर.**

Advice contd...

और अगर आप कुछ **फंडामेंटल कंसेप्ट्स सीखना चाहते हैं**, इसके लिये कष्ट करने की, बुक्स और पेपर्स वगैरा पढने की तैयारी रखते हैं, इसके लिये जरूरी थोडा बहुत मॅथ्स कर सकते हैं (फॉर्म्युला, प्रूफ्स रट्टा मारके याद करना मॅथ्स नहीं है), तो आप को यह डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगेगा और यहा आप कुछ महत्वपूर्ण चीजे सीख सकते हैं.

फिर यहां आपको अच्छी शिक्षा और अच्छा करिअर अवसर मिल सकता है. आप हमारे प्लेसमेन्ट सेल का वेब पेज व्हिजिट कर सकते हैं. लिंक आगे दी गई है.

धन्यवाद!

links -

[about] -

<http://cs.unipune.ac.in/admin/obx/cell/sysadmin/about.htm>

[placecell] -

http://cs.unipune.ac.in/admin/obx/cell/place/Placement_2015_16.html